

CIN - L29130HR1986PLC081555

Corporate Office: Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-1, Sector-27, Gurugram -122009,

Haryana, INDIA Tel.: +91(124) 4715100 E-mail: secretarial@thehitechgears.com

August 08, 2024

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
"Exchange Plaza", C-1, Block – G
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
Symbol – HITECHGEAR

The Manager, Listing Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001 Scrip code – 522073

Subject: <u>Intimation of Newspaper publication of Un-Audited Financial Results for the quarter</u> ended June 30, 2024.

Dear Sir/Madam.

Pursuant to Regulation 33, 47 and other applicable regulations of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Un-audited Consolidated Financial Results along with key standalone financial information of the Company for the quarter ended on June 30, 2024 was duly published in the following Newspapers:

- The Business Standard (National daily newspaper in English)
 The Business Standard, NCT of Delhi and Haryana
 August 08, 2024
 August 08, 2024
 - (Regional daily newspaper in Hindi)

The copy of the said publication is enclosed herewith for your information and record.

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking You

Yours faithfully, For The Hi-Tech Gears Limited

Naveen Jain Company Secretary & Compliance Officer Membership No. A15237

Encl. as above



VST INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Azamabad, Hyderabad – 500 020, Telangana. Phone: 91-40-2768 8000, Fax:91-40-2761 5336 Email:investors@vstind.com, website: www.vsthyd.com. CIN: L29150TG1930PLC000576

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Ninety Third (93rd) Annual General Meeting (AGM) of VST INDUSTRIES LIMITED will be held on Thursday, 29th August, 2024 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) for the purpose of transacting the business mentioned in the Notice dated 25th July, 2024.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023 (In continuation with the Circulars issued earlier in this regard) ("MCA Circulars") has allowed conducting Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) without the physical presence of Members at a common venue till September 30, 2024. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and MCA Circulars, the 93rd AGM of the Members will be held through

In compliance with the MCA circulars and the SEBI circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Members may note that the Notice and the Annual Report 2023-24 will also be available on the Company's website www.vsthyd.com, and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Members can participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Members participating in the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM.

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mai addresses with the Company/KFintech can obtain Notice of the 93rd AGM, Annual Report and/or login details for joining the 93rd AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by writing to KFintech at e-inward_ris@kfintech.com with details of Folio No. and attaching a self-attested scanned copy of the PAN

The Resolutions covered in the AGM Notice will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of AGM). Voting through electronic means would commence at 9.00 a.m. on 26th August, 2024 (IST) and would end at 5.00 p.m. on 28th August, 2024 (IST). Please note that the voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 28th August, 2024 (IST) Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the cut off date (22nd August, 2024) may obtain the user ID and Password by sending a request at evoting@kfintech.com. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote during the AGM through e-voting facility. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the Meeting, may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the Meeting.

Pursuant to Finance Act, 2020 dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to the Members at the prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act'). For the prescribed rates for various categories, conditions for Nil/Preferential TDS and details/documents required thereof. Members are requested to refer to the ITAct and email communications sent by the Company/KFintech in this regard. In general, to enable the compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and/ or update their residential status, PAN, category as per the IT Act by following the procedure as given below

- a) In case of shares held in demat form, Members are requested to contact their respective depository participant.
- b) In case shares are held in physical form, Members are requested to send an email along with the requisite details to KFintech.

Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank account through Electronic Clearing Service (NECS/NACH) or any other means (Electronic Bank Mandate) can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically, by sending a self-attested scanned copy of the cancelled cheque issued by the Banker after implementation of the Core Banking System, bearing the name of the sole shareholder (in case of joint holding, the name of the first holder shall be mentioned in the cheque leaf) by email to e-inward.ris@kfintech.com. Members holding shares in demat form can update their e-mail address and bank account details by submitting a request to the concerned Depository Participants.

SEBI vide its circular dated 16th March, 2023 has mandated furnishing of PAN, KYC details, nomination and compulsory linking of PAN and Aadhaar by the shareholders holding shares in physical form. The forms are available in the websites of the Company www.vsthyd.com and KFintech www.kfintech.com. Members holding shares in physical form are advised to update their KYC details with the Company's Registrar and Transfer Agents, KFintech.

For any query/grievance connected with the electronic voting the Members may refer to the "Frequently Asked Questions" (FAQs) and e-voting user manual for Members available in the download section of the e-voting website of KFintech, or contact Toll Free Number: 1800 309 4001 or contact Mr. Raghunath Veedha, Deputy Manager-Corporate Registry at KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana. Tel +91 40-67162222, e-mail id:raghu.veedha@kfintech.com

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Compan remained closed from 15th June, 2024 to 21st June, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend, if declared.

BY ORDER OF THE BOARD

PHANI K. MANGIPUDI

COMPANY SECRETARY &

VICE PRESIDENT-LEGAL & SECRETARIAL

Place: Hyderabad

Date: 7th August, 2024

VTM LIMITED

Regd. Office: Sulakarai, Virudhunagar CIN L17111TN1946PLC003270. www.vtmill.com

	Statement of Shadanted I maneral results for the	e quarter e.	iaca saiic o	0, 202 .	Rs.in Lakhs
SI. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Previous quarter ended March 31, 2024 (Audited)	Corresponding quarter of previous year ended June 30, 2023 (Unaudited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	6,050.05	6,528.00	4,877.04	21,527.63
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	873.51	374.83	645.80	2,346.10
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	873.51	374.83	645.80	2,346.10
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	641.21	352.47	512.07	1,829.19
5	Other comprehensive income (net of tax)	91.36	25.30	101.97	332.94
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss)	732.57	377.77	614.04	2,162.13
7	for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of the	402.28	402.28	402.28	402.28
	previous year	NA	25,898.83	NA	25,898.83
9	Earnings Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations) a. Basic b. Diluted	1.59 1.59	0.88 0.88	1.27 1.27	4.55 4.55

Note: 1 The above results for the quarter ended June 2024 as reviewed and recommended by the Audit committee of the Board, has been approved by the Board of Directors at its meeting held on August 7, 2024. The statutory auditors of the Company have carried out a limited review of the above unaudited results and issued an unmodified limited review report on the above results.

. The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024 are available on the website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com, on the Stock Exchange where the Company's shares are listed and on the website of the Company i.e. www.vtmill.com

Place: Kappalur, Madurai Date: August, 07, 2024

for VTM Limited K.Thiagarajan - Chairman & Managing Director



THE HI-TECH GEARS LIMITED

CIN: L29130HR1986PLC081555

Regd. Off.: Plot No. 24,25,26, IMT Manesar, Sector-7, Gurugram-122050, Haryana Corp. Off.: Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-I, Sector-27, Gurugram-122002, Haryana Tel.: + 91(124) 4715100 Fax: + 91(124) 2806085

Website: www.thehitechgears.com E-mail: secretarial@thehitechgears.com

Statement of Unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2024

(₹ In Million, except per share data)

_			(\ III WIIIIIOII, EXCE	pi per snare data)
S. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
П		30/06/2024	30/06/2023	31/03/2024
		(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
1.	Total income from operations	2,630.39	2,665.91	11,168.35
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	213.12	122.93	609.25
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	213.12	122.93	1,379.31
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	142.37	92.99	1,142.53
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	119.07	111.76	1,160.49
6.	Equity Share Capital	187.78	187.68	187.78
7.	Reserve/Other equity as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	4,473.75
8.	Earning per share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	(a) Basic: (b) Diluted:	7.58 7.57	4.95 4.94	60.86 60.73
NOT	FS:-			

- 1) The above Unaudited Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on August 06, 2024 and thereafter approved by the Board of Directors in their meeting held on August 06, 2024. The Limited Review have been carried out by Statutory Auditors of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- Additional information pursuant to Regulation 47(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on Key standalone financial information of the company is given below: (₹ in million)

	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
I		30/06/2024	30/06/2023	31/03/2024
П		(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
I	Revenue from operations and other income	1,818.46	1,830.31	7,892.93
I	Profit\(Loss) before tax	187.77	135.90	647.26
I	Profit\(Loss) after tax	143.66	103.06	492.69

4) The full format of the Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 is available on the Stock Exchanges websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.thehitechgears.com)

> For and on behalf of the Board of Directors The Hi-Tech Gears Limited

Deep Kapuria Executive Chairman (DIN: 00006185)





NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

CIN: U67120MH1992PLC069769

Place: New Delhi

Date : August 06, 2024

Regd. Off.: "EXCHANGE PLAZA", Plot No. C/1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051, India

Extract of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for

the quarter ended June 30, 2024

(Rs. in Crores unless otherwise stated)

			Standalone		Consolidated			
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2024	year ended 31.03.2024	Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 30.06.2024	year ended 31.03.2024	Quarter ended 30.06.2023	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
1	Total income from operations	4,050.63	13,510.54	2,832.57	4,509.70	14,780.01	2,987.11	
2	Net Profit for the period (before Tax, Ex ceptional and/or Extraordinary items, including discontinued operations)	2,615.63	8,820.64	2,149.69	3,422.41	11,104.70	2,490.31	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items, including discontinued operations)	2,615.63	8,820.64	2,149.69	3,422.41	11,104.70	2,490.31	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items, including discontinued operations)	1,959.76	6,635.31	1,597.89	2,566.72	8,305.74	1,843.96	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1,965.36	6,645.37	1,606.86	2,573.42	8,311.37	1,849.91	
6	Equity Share Capital	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet of the previous year	-	19,312.28	-	-	23,924.91	-	
8	Earnings per equity share for profit from continuing and discontinued operations (FV Re. 1 each) - Basic and Diluted (Rs.)	39.59*	134.05	32.28*	51.86*	167.79	37.26*	
	* Not annualised							

Note:

- 1. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results pursuant to Regulation 33 of Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) Regulations, 2018, as amended from time to time, read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results are available on our website www.nseindia.com
- 2. The statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on August 6, 2024 and approved by the Board of Directors in its meeting held on August 7, 2024.

Date: August 07, 2024

For and on behalf of the Board of Directors Ashishkumar Chauhan Managing Director & CEO [DIN: 00898469]



e-Auction Notice Request for Proposal (RFP) for

Supply, Implementation and Maintenance of Integrated (QMS)Queue Management System OPEX MODEL at Indian Bank Branches. For Further details, please refer our website www.indianbank.in/tenders / Government e-Market Place (GeM) portal

Deputy General Manager (BOD

GOA STATE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 7th Floor, EDC House, Dr. Atmaram Borkar Road, Panaji - Goa GSIDC Tel.: (0832) 2493550 Email: email@gsidcltd.com

TENDER NOTICE

No. GSIDC/ENGG./NIT-14/2024-25 Date:07/08/2024

GSIDC invites online bids under two bid system on Item Rate Basis from eligible Contractors / Agencies for the work of "Expansion and Upgradation of the Infrastructure of Primary Health Centre, Sanguem, Goa-Furniture Works". (Estimated Cost - Rs. 79,42,474.00).

For detailed Tender Notice, please visit website https://www.gsidcltd.com.



CIN: L24231MH1950PLC008311

The Capital, 1802/1901, Plot No. C - 70, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 Tel: +91 22 6693 2000 Fax: +91 22 2654 0274

Website: www.pfizerltd.co.in E-mail ID: contactus.india@pfizer.com

NOTICE OF 73RD ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS, RECORD DATE AND DIVIDEND INFORMATION

- Notice is hereby given that the 73rd Annual General Meeting ('AGM') of Pfizer Limited ("the Company") will be held on Wednesday, August 28, 2024, at 3.00 P.M IST through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with Ministry of Corporate Affairs ('MCA') circulars and all applicable laws and circulars issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), to transact the businesses as set forth in the Notice of the 73rd AGM.
- In compliance with the MCA and SEBI circular(s), the Notice of the 73rd AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2024, has been sent on Tuesday, August 6, 2024, only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Members holding shares in the dematerialized mode and have not registered/updated their email address and mobile number are requested to register / update the same with their respective Depository Participant(s). The Company has also issued a corrigendum on August 7, 2024 in continuation to the said Notice of the AGM, revising the record date for payment of dividend to Wednesday, August 21, 2024.

The Notice of the AGM, corrigendum to the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2024, is also available on the Company's website www.pfizerltd.co.in, e-voting website of Company's Registrar & Transfer Agent, KFin Technologies Limited at https://evoting.kfintech.com and websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Please note that the Notice of 73st Annual General Meeting shall be read with the said corrigendum dated

Members holding shares in physical mode are requested to register / update their email address and mobile number with Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited by sending Form ISR-1 to einward.ris@kfintech.com for receiving the Annual Report and other communications from the Company, electronically.

- Pursuant to the MCA Circulars, Section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Company is pleased to offer remote e-voting facility, which will enable the Members to cast their votes electronically on all the Resolutions set forth in the said Notice. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("InstaPoll"). The manner of voting remotely and through e-voting system during the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode and physical mode is provided in the Note Nos. 14 - 21 to the Notice to the 73rd AGM.
- The remote e-voting period commences on Saturday, August 24, 2024 from 9.00 a.m. IST and ends on Tuesday, August 27 2024 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be thereafter disabled. The Cut off for determining the eligibility of Members for remote e-voting and e-voting at the AGM is Wednesday, August 21, 2024.
- The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights during the AGM through e-voting. A Member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to electronically vote again during
- Shareholders whose names appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 21, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the said AGM. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., Wednesday, August 21, 2024, can avail the facility of remote e-voting / e-voting at the AGM by obtaining the User ID and password. For detailed instructions pertaining to the same, Members may please refer to the Note No. 20 to Notice of the AGM.

If the email address or mobile number of the Member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, then on the home page of https://evoting.kfintech.com, the member may click "Forgo Password" and enter Folio No. or DP ID, Client ID and PAN to generate a password. Members may also call on RTA's toll free number 1800-309-4001 for any clarification regarding remote e-voting

- The Company has appointed (CS) Mr. Nrupang B. Dholakia, Managing Partner of Dholakia & Associates LLP (Membership No. FCS 10032) Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting and electronic polling process in a fair and transparent manner.
- For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the Note Nos. 14 21 to Notice of the AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Ouestions (FAOs) and e-voting user manual at the Downloads section of https://evoting.kfintech.com or may contact any of the following:

Particulars	KFin Technologies Limited	Pfizer Limited
Name and Designation	Mr. Premkumar Nair,	Mr. Prajeet Nair,
	Manager	Director – Corporate Services &
		Company Secretary
Address	Selenium Tower B, Plot 31-32,	The Capital, 1802 / 1901,
	Gachibowli, Financial District,	Plot No. C − 70, G Block,
	Nanakramguda, Hyderabad 500 032	Bandra Kurla Complex,
		Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Tel	+91 40 6716 2222	+91 22 6693 2000
	Toll-free No.: 1800-309-4001	
Email Id	einward.ris@kfintech.com	contactus.india@pfizer.com

- 9. The record date for the purpose of payment of dividend of Rs. 35/- (350%) per equity share for the financial year ended March 31, 2024, if approved at the AGM is Wednesday, August 21, 2024.
- 10. The said dividend of Rs. 35/- (350%) per equity share for the financial year ended March 31, 2024, if approved by the Members in the ensuing AGM will be paid to the Members on or before September 6, 2024.

Members are further informed that pursuant to the directions by Securities Exchange Board of India ('SEBI'), dividend to shareholders holding shares in physical form shall be paid only through electronic mode with effect from April 1, 2024. Such payment shall be made only upon furnishing the PAN, choice of nomination, contact details including mobile number, bank account details and specimen signature by the said shareholders.

Members can update their Permanent Account Number (PAN) and Know Your Customer (KYC) details and choice of nomination with the Registrar and Transfer Agents of (RTA) the Company, KFin Technologies Limited by submitting form ISR - 1, form ISR-2 and SH - 13 respectively. The said forms are available on the Company's website at the following link: https://www.pfizerltd.co.in/member-utility

11. Members may further note that pursuant to the provisions of the Income Tax Act, 1961, the Company is required to withhold taxes at the prescribed rates on the dividend paid to its shareholders. No tax will be deducted on payment of dividend to the resident individual shareholders if the total aggregate dividend paid during the financial year ending March 31, 2025, does not exceed Rs. 5,000/-.

The withholding tax rate would vary depending on the residential status of the shareholder and documents registered with the Company. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, shareholders are requested to submit the necessary documents in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 through the link https://ris.kfintech.com/form15/ on or before Tuesday, August 13, 2024.

The Shareholders are requested to refer to the Note No. 25 to the Notice of the AGM for detailed instructions and information in this regard.

By Order of the Board of Directors

Prajeet Nair

Director - Corporate Services & Place: Mumbai Date: August 7, 2024 **Company Secretary**



पीटीसी इंडिया लिमिटेड

(पहले पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के न सीआईएन : L40105DL1999PLC099328 साआइएन : १४०१०५०११४१४४४४५ व्यक्तिकृत कार्यालय : द्वितीय तल, एनबीसीसी टॉवर, 15 मीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 066 दूरमाष : 011–41659500, 41595100, 46484200, फैरस: 011–41659144 ई—मेल : info@ptcindia.com, वेबसाइट : www.ptcindia.com

शेयरधारकों को सूचना

रतद्द्वारा पीटीसी इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के उन शेयरधारकों को सूचित किया जाता है, जिनके शेयर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और यथासंशोधित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ("नियमावली") के नियम 6(3)(ए) के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किए जा रहे हैं। प्रावधानों के अनुसार, वे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लागांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ के डीमैंट खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

यह संचार उन लोगों को संबोधित है जिनके शेयर वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान उचित कार्रवाई करने के लिए आईईपीएफ में अंतरित किए जाने योग्य हैं।

इस संबंध में, कंपनी ने उन संबंधित शेयरधारकों को डिपॉजिटरी / आरएंडटीए के पास उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर विशिष्ट संचार पोस्ट करने का काम परा कर लिया है. जिनके लाभांश का लगातार सात वर्षों से भुगतान या दावा नहीं किया गया है, जिसमें उन शेयरों का पूरा विवरण दिया गया है जो उक्त नियमों के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित होने वाले हैं।

ऐसे शेयरधारकों की सूची कंपनी की वेबसाइट www.ptcindia.com पर भी उपलब्ध है। समय–समय पर संशोधितानुसार सेबी परिपत्र दिनांक 3 नवंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 16 मार्च, 2023 और 17 नवंबर, 2023 के अनुसार, बकाया लाभांश भुगतान भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। ऐसा भुगतान तभी किया जाएगा जब फोलियो केवाईसी अनुरूप हो और नामांकन विवरण पंजीकृत हों। इसलिए, भौतिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे अदावाकृत लाभांश का दावा करने के लिये एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, यूनिटः पीटीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, एफ–65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–।, नई दिल्ली—110020 पर कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट को विज्ञापन की तिथि से 15 दिनों के भीतर आवश्यक प्रलेख भेजें या info@ptcindia.com पर ईमेल लिखें ताकि शेयर आईईपीएफ में अंतरित न हों :

1. फॉर्म आईएसआर—1 और आईएसआर—2 (शेयरधारक के नाम वाले मूल रद्द किए गए चेक के साथ)

2. फॉर्म आईएसआर–3, एसएच–13 या एसएच–14 (जैसा भी लागू हो) संबंधित फॉर्म, कंपनी की वेबसाइट<u>www.ptcindia.com</u> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। डीमैट में रखे गए शेयरों के लिए, डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट (क्लाइंट मास्टर लिस्ट) की एक प्रति जिसमें नाम, पता, डीमैट और बैंक खाते के विवरण डीमैट खाता के समक्ष और

कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में क्षतिपूर्ति बॉन्ड भेजा जाना चाहिए। शेयरधारक www.iepf.gov.in पर उपलब्ध विवरण भी देख सकते हैं।

जिन शेयरधारकों ने लगातार सात वर्षों की अवधि तक अपने लाभांश का दावा नहीं किया है, वे अदावाकत लाभांश तथा शेयरों पर एक वैध दावा करने के लिये कंपनी के पंजीकत कार्यालय में लिख सकते हैं या info@ptcindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (पता : एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, युनिट : पीटीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, एफ-65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-। नई दिल्ली—110020 को लिखें या <u>admin@mcsregistrars.com</u> पर ईमेल करें) को लिख सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा वैध दावे की प्राप्ति के अभाव में, कंपनी नियमों की आवश्यकता के अनुसार अदावाकृत लाभांश और संबंधित शेयरों को आईईपीएफ खाते में अंतरित कर देगी।

कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार आईईपीएफ को अंतरित अदावाकृत लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा और ऐसे अंतरण के बाद, शेयरधारक / दावेदार आईईपीएफ प्राधिकरण से लाभांश के साथ अंतरित शेयरों का दावा कर सकते हैं।

विषयवस्तु पर किसी भी अन्य प्रश्न / सहायता के लिए, आप हमें info@ptcindia.com पर लिख सकते हैं / ई–मेल कर सकते हैं।

कृते पीटीसी इंडिया लिमिटेड हस्ता. / (राजीव महेश्वरी)

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 07/08/2024

कंपनी सचिव एफसीएस : 4998

SAMMAAN

सम्मान कैपिटल लिमिटेड

(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था) पाँचवीं मंजिल, इमारत नं. 27, केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 (CIN:L65922DL2005PLC136029)

शाखा कार्यालय के स्थानांतरण करने के लिए सार्वजनिक सचना सूचना इस लिए जारी कि गई है कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड की शाखा को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार बंद/स्थानांतरित करने वाले हैं :

पुराना पता	नया पता
नं.1, ब्लॉक ए, राव नगर, ओम विहार उत्तम	दुसरी मंजिल, प्लॉट नं.3, ब्लॉक -ए, पॉकेट -2, सेक्टर -17, द्वारका आवासीय स्किम, द्वारका, नई दिल्ली-110075,

हमारे ग्राह्क हेल्प लाईन नंबर 1800 572 7777 है (सोमवार से शनिवार - सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, दुसरे और तीसरे शनिवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर)। वैकल्पिक रूप से हमें अपने ग्राहक सेवा ई- मेल आईडी :- homeloans@indiabulls.com. पर लिखें। कते सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था) स्थान : दिल्ली अमित जैन, कंपनी सचीव दिनांक : 07.08.2024

SAMMAAN CAPITAL

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)

पाँचवीं मंजिल, इमारत नं. 27, केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 (CIN:L65922DL2005PLC136029)

शाखा कार्यालय के स्थानांतरण करने के लिए सार्वजनिक सूचना सूचना इस लिए जारी कि गई है कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड की शाखा को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार बंद/स्थानांतरित करने वाले हैं :

3	
पुराना पता	नया पता
प्लॉट नं. 422, उद्योग विहार फेज़ 4,	चौथी मंजिल, ऑगस्टा पॉइंट बिल्डिंग, सेक्टर 53,
गुरुग्राम-122016	गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122002
	प्लॉट नं. 422, उद्योग विहार फेज़ 4,

हमारे ग्राहक हेल्प लाईन नंबर् 1800 572 7777 है (सोमवार से शनिवार - सुबह 9 से शाम 6 बजे तक,

दुसरे और तीसरे शनिवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर)। वैकल्पिक रूप से हमें अपने ग्राह्क सेवा ई- मेल आईडी :- homeloans@indiabulls.com. पर लिखें। कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड

14.05.24 [See Regulation-15 (1) (a)] / 16(3)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis
Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015
Case No.: OA/1131/2023

Summons under sub-section (4) of section 19 of

the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the

M/S K.K STONE THROUGH ITS

PROPRIETOR MR. MANISH Kumar Jain S/O S. Kamal Kumar Jain

TO, (1) MR. KAMAL KUMAR JAIN S/O LT. ST NEMI CHAND JAIN ADD:- WARD NO.5, MAA MOHALLA, DEOLI, TONK, RAJASTHAN -304804 SUMMONS

WHEREAS, OA/1131/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 10.05.2024. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons' Notice on the said Application under Section

9(4) of the Act, (O.A.) filed against you for Recovery of ebts of Rs. 38,94,420.81 (Application along with

belts of Rs. 38,94,420.81 (Application along with opies of documents etc. annexed). In accordance with ub-section (4) of Section 19 of the Act, you the befendants are directed as under- (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why elief prayed for should not be granted; (ii) to disclose anticulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial umber 3A of the original application; (iii) you are sestained from dealing with or disposing of secured usets or such other assets and properties disclosed tother sources.

nder serial number 3A of the original applicati

ending hearing and disposal of the application f

ttachment of properties; (iv) you shall not transfer by vay of sale, lease or otherwise, except in the ordina

ourse of his business any of the assets over whice accurity interest is created and/ or other assets an

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः— केआरएम टॉवर्स, 8वाँ तल, हैरिगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई—600031

मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया।

प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का 05 अगस्त, 2024 को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

पश्चिमः गली 15 फुट, उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः अन्य संपत्ति

(पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

फोनः +91 44 4564 4000 | फैक्सः +91 44 4564 4022

सीआईएन: L65110TN2014PLC097792

ध्यान आकष्ट किया जाता है।

दिनांकः 05 अगस्त, 2024

ऋण खाता सं.: 46040229

स्थानः फरीदाबाद

HDFC BANK_{VS}

v Tribunal (Procedure) Rules, 1993

Exh. No. 1201

(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था) स्थान : गुरुग्राम अमित जैन, कंपनी सचीव दिनांक : 07.08.2024

वाणिग्वियक न्यायालय, कोटा संदि।प्त वाद का सम्मन

पेशी 03.09.2024 लय वाणिज्यिक न्यायाधीश कोटा वाद संख्या ३५/२०२ पंजाब नेशनल बैंक

जर्ये मुख्य प्रबंधक वसूली विभाग, कोटावा विरुद्ध मैं पार्थ एसोसिएट्स व अन्यप्रतिवार्द ोसित (1) में. पार्थ एसोसिएट्स जर्ये प्रो. पलाश जैन

पता जी-1. 286. एग्रो फड पार्क. डण्डस्टीयल एरिया रानपुर, कोटा (राज.) (2) अकेन्द्र कुमार जैन पुत्र फूलचन्द जैन पता : पी-4-201, महालक्ष्मी एनक्लेव, बारां रोड़,

कोटा (राज) वादी ने सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 के आदेश 37 के अधीन वादा न सावल प्राक्र्या साहता 1900 के आदश 37 के अधान आपके विरुद्ध 16,73,568.15 रू. और व्याग के लिए संस्थित किया है। आपको सम्मन दिया जाता है कि आप इस सम्मन की तामील होने की तारीख से 10 दिन के भीतर उपसंजात (हाजिए) हो। यदि आप ऐसा नहीं करेगे तो पित दिन के अवधि बीत जाने के पश्चात वादी को 16,73,568.15 (अक्षरे रूपये सोलह लाख तेहतर हजार पांच सौ अक्सठ एवं पैसे पन्द्रह मात्र) से अनधिक राशि के लिए और खार्चों के ्षय पत्र पन्नह नाज तुर्ज जनावक साहा के लिए ऐसे व्याज सहित, यदि कोई हो , जैसा न्यायालय आदिष्ट करे, डिग्री अभिप्राप्त करने का हक होगा। यदि आप उपसंजात होते हैं तो यदि तत्रपत्रचाल, आपको निर्णय के लिए समन तामील करेगा जिसकी सुनवाई के समय आपको वाद की प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए न्यायालय से समावेदन करने का हरन होगा। यदि आप शाध्य पत्र द्वारा या अन्यध्य न्यायालय का यह समाधान कर देते हैं कि वाद की प्रतिरक्षा गुणागुण (मेरिट) के आधार पर की जा सकती है या युक्ति युक्त है कि आपके प्रतिरक्षा करने के लिए अनुजा दी जानी चाहिए तो प्रतिरक्षा करने की इजाजत दी जा सकेगी है। ाह आज तारीख 30.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से औ

यायालय की मुद्रा लगाकर दिया जाता है। न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालय, कोटा (राज.) मुहर

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार सुरेन्द्र कुमार और सुधा पाल को 31.01.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLVAS00321807 की राशि रू.2,05,772.52 (रूपये दो लाख पाँच हजार सात सौ बहत्तर और बावन पैसे मात्र) और 18.01.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सुचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 05.08.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.2,05,772.52 (रूप**ये दो लाख पाँच** हजार सात सौ बहत्तर और बावन पैसे मात्र) 18.01.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आरजेड-डी-1/129/बी, पहली मंजिल, कवर्ड क्षेत्र 450 स्क्वे. फीट या 41.80 स्क्वे. मीटर्स, गली नंबर 5 महाबीर एन्क्लेव, नसीरपुर पालम विहार, नई दिल्ली-110045.

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 05.08.2024 सम्मान कैपिटल लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

> कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट पेक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **सुरेन्द्र कुमार और सुधा पाल** को 29.08.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00229203 की राशि रू.14,04,309.01 (रूपये चौदह लाख चार हजार तीन सौ नौ और एक पैसा मात्र) और 22.08.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता के सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नेयम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 05.08.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.14,04,309.01 (रूप**ये चौदह लाख चार** हजार तीन सौ नौ और एक पैसा मात्र) 22.08.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

पहली मंजिल (छत के अधिकार के बिना), संपत्ति बेअरींग नं.आरजेड-डी-1ए/129/बी के हिस्से में, खसरा नं. 692/92, 93 और 94 में से जमीन माप 50 स्क्वे. यार्डस, नसीरपुर गाँव में स्थित, महावीर एन्क्लेव से पहचाने जानेवाली कॉलोनी में, गली नंबर 05, नई दिल्ली-110045, एक बाइक पार्किंग जगह के साथ, नीचे की भूमि में अविभाज्य और आनुपातिक सामान्य अधिकार , साथ ही उस भूमि के स्वतंत्र स्वामित्व अधिकार और जो निम्नानुसार सीमित हैं:-

पूर्व : अन्य की संपत्ति उत्तर : अन्य की संपत्ति

परिशिष्ट−।∨ [नियम 8(1)] कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जबिक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के अधोहस्ताक्षरी

प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभृति

हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित

30.04.2024 जारी की थी जिसमें कर्जदार, सह-कर्जदारों और जमानतियों 1. रामेश्वर प्रसाद, 2. रमावती देवी से सूचना में उल्लिखित

दिनांक 29.04.2024 को राशि रु. 24,47,233.91/- (रुपये चौबीस लाख सैंतालीस हजार दो सौ तैंतीस और इक्यानवे पैसा मात्र) को उक्त

कर्जदारों द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और जन सामान्य को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति

हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का

विशेष रूप से कर्जदारों और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा

संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **राशि रु. २४.४७.२३३.९१ /- (रुपये चौबीस लाख सैंतालीस हजार दो सौ तैंतीस और इक्यानवे पैसा मात्र)** और इस पर ब्याज के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का

अचल संपत्तियों का विवरण प्लॉट / संपत्ति नं. 132 (अब संपत्ति एमसीएफ नं. 4102 के रूप में ज्ञात), माप 60 वर्ग गज + 36 वर्ग गज = 96 वर्ग गज, खसरा नं. 14/12/1/2 में, स्थित वाका मौजा गाउछी, संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, तहसीलः बल्लभगढ़, जिलाः फरीदाबाद, हरियाणा-121005 के समस्त भाग व खंड और सीमाएँ निम्नवतः पूर्वः अन्य संपत्ति,

प्राधिकृत अधिकारी सम्मान कैपिटल लिमिटेड

IDFC FIRST

Bank

पश्चिम : 12 फीट चौड़ी गली

दक्षिण : अन्य की संपत्ति

दिनांक: 05.08.2024 स्थान : नई दिल्ली (पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

security interest is created and/or other assets and opporties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 19.08.2024 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Home Loans <mark>रांजीकृत कार्यातय</mark>ः प्रछा तत, स्तांट गंबर 16, इंश्टीट्यूशनत एरिया, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122 002, हरियाणा **शास्त्रा कार्यातय**ः ग्रथम तत, स्तांट गंबर 6, सी–6, गीरा न वित्तीहराव -312 001 एवं **शास्त्रा कार्यातय**ः दुकान नंबर 220, द्वितीय तत, गांधार कोम्पेक्स, निकट होटल कृष्णा, भगत चीराहा, व्यावर- 309901 iven under my hand and the seal of this Tribunal or is date: 13.05.2024. his date: 13.05.2024. Assistant Registrar Seal Debts Recovery Tribunal, Jaipu

ऋण सं.		सह—कर्जदारों नाम	मांग सूचना की तिथि	भौतिक कब्जा की तिथि	प्रतिमूत आस्ति(याँ) (अचल सम्पत्तियाँ) का वर्णन
HL18000 0061 9/AP-013 6105	श्रीमती जमना देवी पत्नी चुन्नी लाल	श्री चुन्नी लाल	16-02-2018	03-03-2021	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय मकान हदमाला कच्छी बस्ती मोई खेडा, वित्तीडगढ़, तहसील एवं जिला वित्तीडगढ़ (राजस्थान) बौहददी :- पूरब : सेड, पश्चिम : सज्जन कुंवर,/मवानी सिंह का मकान, उत्तर : नेबू लाल/मेरात मल्हा का मकान, दक्षिण : जगदीश/मेश्चराम का मकान
HL140000138 3/AP-0081164	श्रीमती सुगना बाई गडरी पत्नी सुरेश चन्द्र गडरी	श्री सुरेश चन्द्र गडरी	16-11-2021	02-12-2022	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय परिसर हदमाला कच्ची बस्ती, बोई खेड़ा, अराजी नंबर 260/1, चित्तौडगढ़ (राजस्थान), चौहद्दी :- पूरब : कन्हैया लाल जटिया का मकान, परिचम : स्पेश जटिया का मकान, उत्तर : रोड, दक्षिण : खुती बूमि
CLA100004148	श्री /श्रीमती रूकमा पत्नी गौतम कठाट	श्री / श्रीमती गौतम	10-08-2022	07-10-2023	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय प्लॉट एरिया 83.43 वर्ग गज, स्थित पट्टा नंबर 01, दिनांकित 20–04–2013, ग्राम मेडिया, ग्राम पंचायत नुनदरी मेंडरतन, तहसील व्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान।

illndiaShelter इंडिया होल्टर फाइनैंस कार्पोरेहान लिमिटेड

नुपालन, उसमें निर्धारित अवधि के भीतर, करने में असफल रहने के कारण, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूत आस्ति का भीतिक कब्जा ले लिया है, जिसका अधिव क्त मांग सूचना में किया गया है।

व्हत मान सुप्ता म किया गया है। जदहार उन्न करोजारों को सुप्ता दी जाती है कि प्रतिभूत आरित के भीतर रखा व्यक्तिगत सामान इस प्रकाशन की तिथि से 15 (पंदाई) दिन के भीतर हटा सें/निकात । तसमें असकत रहने पर प्राधिक्त अधिकारी के पास, व्यक्तिगत सामान उसके द्वारा उपयुक्त विधारित उंग से इत्यादि हटाने और उसका निपटान करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न , जो लागत और परिणामों के संकंश में पूर्णतया कर्जदार की जोटिम के अधीन होगा, तका ऐसी स्थिति में इस संकंश में आरो कोई दावा मध्य नहीं होगा । तामात और १८०० का अध्येत, स्वान १ सित्तीविकाद, श्वावर (पाज) (प्राविक्त अकियारी) सेंग्या सेंटर फाइन्टिंग स्वापिटेंड किसी पूछताछ के लिए, कृषया सम्पर्क करें : श्री दीषक सुकार, मोबाइल नंबर-(७४४०००१००) अथवा श्री विनय राणा, मोबाइल नंबर-(७४७०००००००)

254879) एवं श्री मनीष पुरी गोस्वामी (+91 77376598



दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड

CIN: L29130HR1986PLC081555 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24,25,26, आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरूग्राम-122050, हरियाणा कार्पो. कार्यालय : मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुशान्त लोक-।, सेक्टर-27, गुरूग्राम -122002, हरियाणा फोन :+ 91(124) 4715100 Fax: + 91(124) 2806085 वैवसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल : secretarial@thehitechgears.com

जन 30, 2024 को समाप्त तिमाही हेत अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

	जून 30, 2024 का समाप्त तिमाहा हतु अनकाक्षत सम			
		(₹9,	मिलियन में, सिवा	य प्रति शेयर डेटा)
क्र.	विवरण	तिमाही	तिमाही	वर्ष
सं .		समाप्त	समाप्त	समाप्त
II .		30/06/2024	30/06/2023	31/03/2024
IL.		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	2,630.39	2,665.91	11,168.35
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	213.12	122.93	609.25
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	213.12	122.93	1,379.31
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	142.37	92.99	1,142.53
5.	तिमाही/वर्ष हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) शामिल है)]	119.07	111.76	1,160.49
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	187.78	187.68	187.78
7.	संचेय/अन्य इक्विटी, जैसा कि पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है	-	•	4,473.75
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु) —			
II.	(क) मूल :	7.58	4.95	60.86
IL	(ख) तनुकृत :	7.57	4.94	60.73

नोटसः

रथान : नई दिल्ली तिथि: अगस्त 06, 2024

1) उपरोक्त अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा अंकेक्षण समिति द्वारा अगस्त 06, 2024 को सम्पन्न उसकी बैठक

में की गई है और उसके बाद निदेशक मंडल द्वारा अगस्त 06, 2024 को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदन किया गया है। 2) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए जून 30, 2024 को समाप्त तिमाही हेत् समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का

3) सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1)(ख) के अनुसरण में, कम्पनी की प्रमुख पृथक्कृत वित्तीय सूचना के विषय में अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है :

			(रू. ामालयन म)
विवरण	तिमाही	तिमाही	वर्ष
	समाप्त	समाप्त	समाप्त
	30/06/2024	30/06/2023	31/03/2024
	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
परिचालन से आय और अन्य आय	1,818.46	1,830.31	7,892.93
कर पूर्व लाभ / (हानि)	187.77	135.90	647.26
कर पश्चात लाभ / (हानि)	143.66	103.06	492.69

4) जून 30, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट (<u>www.nseindia.com</u> एवं <u>www.bseindia.com</u>) तथा कम्पनी की वेबसाइट (<u>www.thehitechgears.com</u>) पर कृते एवं हिते निदेशक मंडल

> दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड हस्ता./-दीप कपूरिया

> > (DIN: 00006185)

IDBI BANK

ई-नीलामी सूचना

1. अन्य

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, 8वीं मंजिल, प्लेट बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी कार्यालय परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023, फोन नंबर: 011-69297259

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना 31.08.2024 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक होने वाली ई-नीलामी के लिए सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बन्धककृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियाँ, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभृत लेनदार (आईडीबीआई बैंक लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, प्रतिभृत लेनदार (आईडीबीआई बैंक लिमिटेड) के **लता रानी गोयनका (कर्जदार) तथा सुरज कुमार (सह-कर्जदार** से मांग सूचना दिनांक 17.06.2020 के अनुसार बकाया रु. 72,69,941/- तथा वसूली यदि कोई हो, को घटाकर भावी ब्याज, लागतों तथा बैंक द्वारा उस पर किये गये व्ययों की वसूली के लिए 31.08.2024

को ''जहाँ है जैसे है''. ''जो है यही हैं'' तथा ''जो कछ भी है वही है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मुल्य रु. 1,07,73,000/- होगा और जमा धरोहर राशि रु. 10,77,300/- होगी। कर्जदार(रों) बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) की देय राशि, आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि तथा अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	कर्जदार⁄ (सह-कर्जदार)/ जमानती का नाम	माँग सूचना की तिथि तथा उसमें उल्लिखित बकाया गशि	. 6	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	ईएमडी तथा संविदा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	वर्धित बोली	अधिकृत प्राधिकारी∕नोडल अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क
1.	श्रीमती लता रानी गोयनका (कर्जदार) तथा सूरज कुमार (सह-कर्जदार)	17.06.2020 तथा रु. 72,69,941/-	तीसरी मंजिल पर कार्यालय से. टीएफ ०४ (ए), जेएमडी रीजेंट प्लाजा, एमजी रोड, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा, क्षेत्रफल	भौतिक	23.12.2020	रू. 1,07,73,000 /-	रु. 10,77,300∕-	30.08.2024 को 6.00 बजे अप. तक	सम्भावित क्रेता स्वयं देख सकते हैं	रू. 50,000∕-	श्री अमित राणा- 9990527220 श्रीमती अमरज्योति नैयर-
	निवासी टी 28.⁄9, डीएलएफ फेज III,		लगभग 840 वर्ग फीट	खाते व	 हा विवरण जि	 समें आरटीजीए	् रस∕एनईएफटी के	माध्यम से ईएमर्ड		तथा आईएफए	011-69297259 ससी कोड

खाता सं. : 19134915010026, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईएफएससी कोड : IBKL0000191

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार ऊपर वर्णित अचल संपत्तियों पर कोई ऋणभार ज्ञात नहीं है, हालांकि इच्छुक बोलीदाता को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। वर्तमान में दो मामले डीआरटी-1. नई दिल्ली के समक्ष लंबित हैं. अर्थात आईडीबीआई बैंक बनाम कैप्री ग्लोबल एवं अन्य (टीएसए/596/2022) और ओमकारा एआरसी बनाम आईडीबीआई (टीएसए/1024/2022) । कृपया ध्यान दें कि ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ऐसा माना जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। कृपया आगे ध्यान दें, कि बिक्री बोली/निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वेबसाइट यानी https://www.idbibank.in और https://www.bankeauctions.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यह बिक्री ई-नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर होगी, संपर्कः श्री मिथलेश कुमार (ईमेलः delhi@c1india.com और support@bankeauctions.com या सेलः +91–7080804466, फोनः +91–124–4302020/2021/2022/2023)। विस्तृत नियम व शर्तो के लिए कृपया आईडीबीआई बैंक (प्रतिभूति ऋणदाता) की वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://www.idbibank.in और/या https://www.bankeauctions.com देखें।

ह./- अधिकृत प्राधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि. तिथि : 08.08.2024, स्थान : नई दिल्ली

FORM NO. 5 **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL** 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow - 226007 (Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)

Original Application No. 814 of 2023 Date: 31.07.2024 {Summons to defendant under Section 19(3), of the Recove Debts and Bankruptcy Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993) I.D.B.I. Bank Ltd. Applican

Versus M/s Vidhiseeds Agro Development Producer Company

Limited and others Defendants 2. Sri Punit Singh S/o Sri Kanhai Singh R/o 1/304, Gulmohar Enclave

Rakesh Marg, Nehru Nagar IInd Ghaziabad, UP-201001. Smt. Nidhi Rani W/o Sri Narayan Lal Sharma R/o 201, DDA Flat, RPS

Mansarovar Park, Shahdra SD, East Delhi-110002 Smt. Astha W/o Sri Ram Siromani Yadav R/o Plot No. 210, Rd. No. 5, Near Water Tank, Meenakshi Estate, Jeedimall Vill. Asif Nagar Hyderabad, Telangana-500067

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorised agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorised agent publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 20.08.2024 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

FORM NO. 5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL 620/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow - 226207

(Area of Jurisdiction-Part of Uttar Pradesh) Summons for filing Reply & Appearance Through Publication

O. A. No. 351 / 2024 Dated 05.08.2024 (Summons to defendant under Section 19(4), of the Recovery of debts

due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts recovery Tribunal (Procedure Rules 1993)

...Applicant VS SMT ANJANA RAGHAV & OTHERS .DEFENDANTS

3. Mr. Nimesh Bharti adult S/o shri prakash chand R/o- Bulandshahar Road, Near Peepal Wala Mandir Rajiv vihar, Hapur

In the above noted application, you are required to file reply/evidence in Paper Book form in Two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal or 23.08.2024, at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

øefl

औंडूंबर, 101 🖊 1, इरांडावने केटकर रोड, पुणे 411004 महाराष्ट्र,भारत

इलैक्ट्रानिका फाइनेंस लिमिटेड

(परिशिष्ट IV) नियम 8(1) चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (यहां के बाद ''सरफेसी अधिनियम,

2002'' के रूप में संदर्भित) इसका **पंजीकृत कार्यालय औड्बर, प्लॉट नं. 101/1** डॉ. केटकर रोड, प्रांजपे बिल्डर ऑफिस के सामने, इरांडावने, पुणे-411004 (यहां के बाद "ईएफएल" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त राक्तियों के अनुपालन में **इलैक्ट्रानिका फाइनेंस लिमिटेड, एक गैर—बैंकिंग** वित्तीय संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्तनामित आपको बुलाने के लिए मांग **सूचना दिनांक 13.03.2024 और 20.03.2024 को प्रकाशन** जारी किया था :-

1. जैन प्रिंटस एंड पैकजिंग, ए२/६७, साइट।V, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश— 201010 सुषमाना जैन, एडवांटेज, टॉवर नं. 17, प्लॉट नं. 17224 न्यू हैबिटेट सेंटर जयाबाद, उत्तर प्रदेश 201010 **3. पीयूष जैन,** 22 मंजिल, 17224 एडवांटेज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201010

आपको यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एव पनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ की धारा १३(२) तहत जारी संचना दिनांक 13.03.2024 18.03.24. 21.03.24 को आप नं. 1 से 3 को दी जा रही ैं और **ऋण खाता सं./ संदर्भ** APPL00056396(LOAN000005019656) वे तहत उक्त सूचना की प्रप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज के सहित 22.01. 2024 तक मौजूदा सूचना में वर्णित राशि रु. 99,04,783 / - (निन्यानवे लाख चार **हजार सात सौ तिरासी केवल)** का भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है।

ऋणी / गारंटर राशि का भुगतान करने में असफल रहें, एतदद्वारा ऋणी औ सर्वसाधारण को सूचित कियाँ जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अध्याधेश की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 06 अगस्त, 2024 के

विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा अनुसूची । में वर्णित परिसंपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती हैं और अनुसूची । में वर्णित परिसंपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन—देन **22.01.2024 तक** राशि **रु** 99,04,783 / - (निन्यानवे लाख चार हजार सात सौ तिरासी केवल) और उसपर ब्याज व अन्य शुल्कों के लिए **"ईएफएल"** के प्रभार का विषय होगा।

ऋणी का ध्यान प्रतिभतित परिसंपत्ति को छड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

परिसंपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :— अनुसूची । क्र. परिसंपत्ति का नाम ऑटोमैटिक वैक्यूम फॉर्मिंग मुशीन, हाइड्रोलिक कुटिंग

		नशान, ।चल्लर 2 टायर, कन्त्रशर 7.5 एवपा, फानिंग नाल्ड
2.	अन्य	65 एमएम पीवीसी राइट फिल्म प्लांट की आपूर्ति
3.	अन्य	पीवीसी वेल्डिंग मशीन
4.	अन्य	पीवीसी वेल्डिंग मशीन
5.	अन्य	82.5केवीए डीजी सेट
6.	अन्य	6.160 केवीए साइलेंट सेट फैक्टरी एसम्बेलड साइलेंट सेट उक्त इंजन मॉडल के सहित कम्पल्ड टू स्टेमफोर्ड निर्माता एल्टरनेटर दोनों कॉमन बेस फ्रेम पर लगे, फ्यूल टैंक, रेजीडेंशियल साइलेंसर, एवीएम पैड्स, इसके लीड्स के साथ बैटरी, ल्यूब ऑयल की पहली फिल, अकोस्टिक एक्लोजर और मैनुअल कंट्रोल पैनल के साथ (मॉडल नं. 2014)
7.	अन्य	65 एमएम एक्ट्रोशन प्लांट पीवीसी फिल्म के एक्ट्रोशन के लिए (1 सेट) सप्लिया स्क्रू व एक्ट्रा डाई एक्ट्र का स्कोप (मॉडल नं. : 2014)
8.	अन्य	पीवीसी ब्लॉन फिल्म प्लांट, विबरियो शिफ्टर व पीवीसी कम्पाउंड मिक्सर (मॉडल नं. 65 एमएम)

ओल्ड हिप्स शीट एक्ट्रूडर मशीन पैनल्स एक्ट्रूडर के साथ कैलेंडर रोल्स, विंडर, इलैक्ट्रिक पैनल्स (मॉर्डेल नं. : 2015)

स्थान : गाजियाबाद दिनांक : 06.08.2024 इलैक्ट्रानिका फाइनेंस लिमिटेड

प्राधिकृत अधिकारी,

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय)